

## रेड / दो बुक शॉप्स पर विजिलेंस की रेड कर एनसीईआरटी की नकली बुक्स पकड़ी, एक करोड़ रुपए की नकली किताबें छपवाने का शक



- बुधवार को सेक्टर-22 स्थित हैपी बुक शॉप और सेक्टर 23 स्थित रमेश बुक स्टोर पर विजिलेंस ने छापेमारी कर डुप्लिकेट किताबें हासिल की
- इन बुक स्टोर्स पर 90 फीसदी से अधिक किताबें पहले ही बिक चुकी थी, रेड में मिली नकली किताबों को विजिलेंस ने अपने कब्जे में लेकर शुरु की जांच

Hindi News | Himachal Chandigarh | Chandigarh  
Vigilance caught duplicate books of NCERT during raid on two book stores.

Apr 10, 2019, 06:28 PM IST

**चंडीगढ़.** चंडीगढ़ के प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की नकली किताबें बेचने का मामला सामने आया है। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में कुछ दुकानों ने यह योजना बनाई की एनसीईआरटी नकल की किताबें छपवा ली जाएं। यह किताबें हूबहू एनसीईआरटी की तरह हों इसका खास खयाल भी रखा गया। यहां तक की एनसीईआरटी के लोगो को भी कॉपी कर लिया गया।

यूटी विजिलेंस डिपार्टमेंट को इसके बारे में पता लगा और उन्होंने एनसीईआरटी नई दिल्ली को इसकी जानकारी दी। इसके बाद एनसीईआरटी की विजिलेंस टीम नई दिल्ली से आई। फिर एनसीईआरटी की टीम ने यूटी विजिलेंस टीम के साथ मिलकर रेड की।

बुधवार को सेक्टर-22 स्थित हैपी बुक शॉप और सेक्टर-23 स्थित रमेश बुक स्टोर पर विजिलेंस ने छापेमारी कर एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित की जाने वाली किताबों की डुप्लिकेट कॉपी हासिल की है। विजिलेंस डिपार्टमेंट से मिली जानकारी के मुताबिक इन बुक स्टोर्स पर 90 फीसदी से अधिक किताबें पहले ही बिक चुकी थी, जिनकी कीमत करीब एक करोड़ के करीब बताई गई है। रेड में मिली नकली किताबों को विजिलेंस ने अपने कब्जे में लेकर जांच शुरु कर दी है।

### शहर में एनसीईआरटी किताबों की कमी:

चंडीगढ़ में 114 सरकारी और 80 से अधिक प्राइवेट स्कूल हैं। दो लाख से अधिक स्टूडेंट इन स्कूलों में पढ़ते हैं। सीबीएसई गाइडलाइंस के तहत सरकारी ही नहीं प्राइवेट स्कूलों में भी अब एनसीईआरटी किताबों को लागू करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। लेकिन हर साल एनसीईआरटी किताबों की कमी के कारण लोकल किताब विक्रेता एनसीईआरटी बुक्स को अपने स्तर पर प्रकाशित करवाकर उन्हें बाजार में महंगे दामों पर बेचते हैं।

### विजिलेंस सेक्रेटरी के निर्देश पर हुई कार्रवाई:

शहर में एनसीईआरटी की नकली किताबें बेचने की शिकायतें लगातार एजुकेशन डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों के पास आ रही थी। एजुकेशन सेक्रेटरी बीएल शर्मा के पास ही विजिलेंस विभाग भी है। उन्होंने शहर में अधिकारियों को इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद एक ही समय पर सेक्टर 22 और सेक्टर 23 की बुक शॉप्स पर रेड की गई। जांच के मुताबिक यह किताबें उत्तर प्रदेश में छापी गईं।